



छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय

प्रेस विज्ञप्ति

कल्याणपुर, कानपुर

उत्तर प्रदेश-208024

दिनांक: 11-02-2022

गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट आज के प्रत्येक विद्यार्थी की महत्वपूर्ण जरूरत: कुलपति महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा आज माननीय कुलपति की अध्यक्षता में शहर के नामचीन प्राध्यापकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें इस विषय पर विचार किया गया कि किस प्रकार शिक्षक अपने संचित ज्ञान का उपयोग कर विद्यार्थियों के लिए NEP-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट बना सकते हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से आए विभिन्न प्राध्यापकों में से डॉ मीत कमल और पुष्पेंद्र त्रिपाठी को विज्ञान; डॉ विभा दिक्षित और आशुतोष सक्सैना को सामाजिक विज्ञान; डॉ जी डी दुबे तथा निहारिका टंडन एवं डॉ अरविंद सिंह को भाषा एवम डा विशाल सक्सैना को वाणिज्य के ई कंटेंट बनाने के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया। जीवन विज्ञान, विधि, शिक्षा शास्त्र तथा अन्य विषयों में विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी इ कंटेंट बनाने में सहयोग लेने का निर्णय लिया गया। प्रयोगात्मक विषयों हेतु विश्वविद्यालय टीम कॉलेजों में जाकर रिकॉर्डिंग कर प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करेगी। सभी समन्वयकों से यह अनुरोध किया गया कि निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद को एक कार्यक्रम समय सारणी 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दें ताकि विश्वविद्यालय में निर्मित स्टूडियो में शिक्षकों को बुलाकर e-content की रिकॉर्डिंग की जा सके। इस रिकॉर्डिंग हेतु सेवानिवृत्त शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा पारिश्रमिक तथा सेवारत शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा। संकाय वार निर्मित ई कंटेंट

का समिति द्वारा परीक्षण कर उसे विश्वविद्यालय के ज्ञान संचय पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। ई कंटेंट की गुणवत्ता के आधार पर शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संकाय वार सबसे अधिक लाइक्स वाले वीडियो बनाने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में उपरोक्त सभी सदस्यों के अतिरिक्त डीन, प्रशासन, पोर्टल का संचालन करने वाले अमृत विश्वकर्मा तथा रिकार्डिंग सहायता हेतु जर्नलिज्म तथा मास कम्युनिकेशन विभाग के सभी शिक्षक उपस्थित थे।

डॉ. विशाल शर्मा

मीडिया प्रभारी

Vishalsharma@csjmu.ac.in